

## कक्षा - 4

### पाठ - 12 ( सुनीता की पहिया कुर्सी )

#### कठिन शब्द

1. हालाँकि
2. पहिया कुर्सी
3. मैदान
4. बाज़ार
5. व्यवहार
6. परवाह
7. पैडिल
8. आचार
9. बोतल
10. रस्सी कूदना

#### शब्द अर्थ

1. हालाँकि - फिर भी

2. कठिन - मुश्किल
3. जवाब - उत्तर
4. अजीबोगरीब - अद्भुत
5. परवाह - फिक्र

वचन बदलो

1. पलंग - पलंगो
2. कुर्सी - कुर्सियों
3. बोतल - बोतलों
4. लड़का - लड़कों
5. पहिया - पहियों

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे ?

उत्तर- सुनीता एक विशेष आवश्यकता वाली लड़की थी और वह पहली बार अकेले बाज़ार गई थी , इसीलिए लोग उसे गौर से देख रहे थे !

प्रश्न 2. सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा ?

उत्तर -सुनीता को बुरा इसीलिए लगा क्योंकि वह अपना काम अपने आप करना चाहती थी

प्रश्न 3.फरीदा की माँ ने फरीदा को सुनीता से बात करने से क्यों रोका?

उत्तर -फरीदा की माँ ने उसे सुनीता से बात करने से इसीलिए रोका क्योंकि सुनीता एक विकलांग लड़की थी !

प्रश्न 4.अमित और सुनीता में क्या समानता थी ?

उत्तर -अमित और सुनीता दोनों ही लोगों की उपेक्षाओं का शिकार थे !

कक्षा - 4

पाठ -13 ( हुद हुद )

कठिन शब्द

1. बादशाह
2. उड़नखटोला

3. गिद्ध
4. परामर्श
5. हुदहुद
6. चौककना
7. चटकीला
8. पदुबया
9. घोंसला
10. विख्यात

### शब्द अर्थ

1. भेंट - मुलाक़ात
2. चतुर - चालाक
3. सहायता - मदद
4. वंश - कुनबा
5. समेटना - इकट्ठा
6. नहरनी - नख कतरनी
7. विख्यात - प्रसिद्ध
8. चटकीला - रंग बिरंगा

## विलोम शब्द

1. जाना - आना
2. गर्मी - सर्दी
3. आकाश - धरती
4. छोटे छोटे - बड़े बड़े
5. दूर - नजदीक
6. प्रसन्न - दुखी
7. तीखी - कुंठित
8. पालतू - जंगली
9. विख्यात - कुख्यात
10. भीतर - बाहर
11. चौककना - बेफिक्र
12. मिठास - कड़वाहट

## प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. सुलेमान बादशाह ने पहले किससे मदद मांगी ?

उत्तर - सुलेमान बादशाह ने पहले गिद्धों से मदद मांगी ,क्योंकि जब वह आकाश में उड़ रहे थे तो उन्हें गर्मी लग रही थी !

प्रश्न 2. दूसरी बार उन्होंने किससे मदद मांगी ,क्या वे मदद प्राप्त कर सके ?

उत्तर - दूसरी बार सुलेमान ने हृदहृदों से मदद मांगी और इस बार वे सफल हुए क्योंकि हृद हृदों ने छोटे होने के बावजूद इकट्ठे होकर सुलेमान को छाया प्रदान की !

प्रश्न 3. हृद हृदों के मुखिया ने सुलेमान से क्या वरदान मांगा ?

उत्तर - हृद हृदों के मुखिया ने सुलेमान से अपने सर पर सोने की कलगी मांगी !

प्रश्न 4. दूसरी बार मुखिया ने कलगी वापस लेने की प्रार्थना क्यों की ?

उत्तर - दूसरी बार मुखिया ने कलगी वापस लेने प्रार्थना की क्योंकि सोने की कलगी के कारण लालची लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया !

प्रश्न 5. वर्तमान में हृद हृद की कलगी और शरीर कैसा है ?

उत्तर - वर्तमान में हुद हुद की कलगी रंग बिरंगी है और यह इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग है और इसका शरीर काला और सफ़ेद धारियों वाला है !

प्रश्न 6. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ?

उत्तर - इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है की हमे कभी लालच नहीं करना चाहिए !